

N 502

Seat No.

--	--	--	--	--	--	--	--

2024 III 01 1100 - N 502 - HINDI (02) (FIRST LANGUAGE) (H)

(REVISED COURSE)

Time : 3 Hours

(Pages 18)

Max. Marks : 80

- सूचनाएँ :-**
- (1) सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पुरक पठन तथा भाषा अध्ययन (व्याकरण) की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है।
 - (2) सभी आकृतियों के लिए पेन/पेन्सिल का ही प्रयोग करें।
 - (3) रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है।
 - (4) शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है।

विभाग 1—गद्य : 20 अंक

1. (अ) निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए :

7

मेरे मन में देरों सवाल उठते। आखिर ये इस तरह 'वी' आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं ? ये सब कहाँ जा रहे हैं ? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा ? बीचवाला क्यों अपनी जगह पर उमी रफ्तार से चला जा रहा है ? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है ? कौन है इनका निर्देशक ?

P.T.O.

2/N 502

बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास जाता, तो माँ मेरा मिर सहलती।
कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस हैं।

“तो ये सारे हंस जो इस तरह एक गति में उड़ते हैं, उसका क्या मतलब हुआ ?”

“ये आपस में रिश्तेदार हैं।”

“सबसे आगे वाला उनका नेता होता है। वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों को बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है। वह हवा को काटता है। उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं।” – माँ कहती।

(1) कृति पूर्ण कीजिए :

2

लेखक के मन में उठे सवाल


↓

↓

↓

↓

(2) विशेषतः लिखिए :



(3) 'पक्षियों में पाया जाने वाला अनुशासन' विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए।

3

(आ) निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए :

7 ✓

मेरा जीवन एक खुली किताब रहा है। मेरे न कोई रहस्य हैं और न मैं रहस्यों को प्रश्रय देता हूँ।

मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना-सा इन्सान हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह सच्चा और पूरी तरह अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूँ। यह लक्ष्य सच्चा है, यह मैं जानता हूँ पर उसे पाने में बार-बार असफल हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य तक पहुँचना कष्टकर है पर यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला लगता है। इस तक पहुँचने की प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुँचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती है।

जब मैं एक और अपनी लपुता और अपनी सीमाओं के बारे में सोचना है और दुगरी और मुझसे लोगों की जो अपेक्षाएँ हो गई हैं, उनकी बात सोचना है तो एक क्षण के लिए तो मैं सतब्ध रह जाता हूँ। फिर यह समझकर प्रकृतिस्थ हो जाता हूँ कि ये अपेक्षाएँ मुझसे नहीं हैं। ये मृत्यु और अहिंसा के दो अमूल्य गुणों के मुझमें अवतरण हैं। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो पर मुझमें अपेक्षाकृत अधिक द्रष्टव्य है।

(1) कारण लिखिए :

(i) लेखक का जीवन एक खुली किताब है—


.....

(ii) लेखक प्रकृतिस्थ हो जाते हैं—


.....

(2) लिखिए :

(i) लेखक में इन गुणों का अवतरण है।



(ii) लेखक इनके बारे में सोचते हैं।



(3) 'कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए' विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए।

3

(इ) निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए :

6

यह एक 'साधारण महिला' की असाधारण कहानी है, जो अपनी असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रोत्साहन व प्रेरणा लेकर सफलता के शिखर पर पहुँची है।

वहाँ अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता का मन बारिश में भीगने, समुद्र या झील या फिर सरोवर में तैरने को कर रहा था। दरअसल अंतरिक्ष में रहते हुए हरदम गंदगी-सी महसूस होती है। भारहीनता के कारण पसीने की बूँदें त्वचा से चिपकी रहती हैं। और धीरे-धीरे इकट्ठा होकर त्वचा को छोड़ देती हैं, लेकिन किसी चीज से टकराने से पहले वे इधर-उधर तैरती-सी रहती हैं।


कभी-कभी सुनीता का पृथ्वी को स्पर्श करने का मन करता था। वह अपोलो के अंतरिक्ष यानों के बारे में सोचने लगती थी और यह सोचती थी कि चंद्रमा पर पूरी तरह उतरने से पहले ही पृथ्वी पर वापस आना उन्हें कितना निराशाजनक लगा होगा।

6/N 502

रात होते ही पृथ्वी जैसे टिमटिमाने लगती थी और जो क्षेत्र दिन में वीरान दिखाई दे रहे थे, वे चमत्कारी रूप से छोटी-छोटी बत्तियों के प्रकाश से जगमगा उठते थे। ऐसे में सुनीता का जी करता था, 'समुद्र में डुबकी लगाने का'।


(1) कृति पूर्ण कीजिए :

2



(2) कृति पूर्ण कीजिए :

2



(3) 'परिवार से प्रोत्साहन तथा प्रेरणा का महत्त्व' विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए।

2

7/N 502

विभाग 2—पद्य : 12 अंक

2. (अ) निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए :

6

ऊर्ध्वतम ही है चलना

जैसे पृथिवी चलकर गौरीशंकर बनती!

छूट गए पीछे

कस्तूरी मृगवाले वे

मधु मानव-से उत्सव जंगल,

ग्रीष्म तपे

तँबियारे झरे पात की

वे बनानियाँ,

गिरे चीड़फूलों से लदी भूमि

औ' औषधियों के वल्कल पहने

परम हितैषी वृक्ष

सभी कुछ छूट गए।

P.T.O.

(1) उचित मिलान कीजिए :

2

	अ	उत्तर	आ
(i)	औषधि	ताप
(ii)	ग्रीष्म	वल्कल
(iii)	कस्तूरी	पात
(iv)	तौबियारे	उत्सव
			मृग

(2) पद्यांश से ढूँढकर लिखिए :

2

(i) विलोम शब्द :

(1) आगे ×

(2) अहितैषी ×

(ii) समानार्थी शब्द :

(1) पेड़ =

(2) वन =

(3) प्रथम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए।

2

(आ) निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए :

6

‘ब्रजवासी’

अथवा

‘चलो हम दीप जलाएँ’

9/N 502

मुद्दे :

(1) रचनाकार का नाम -

1

(2) रचना की विधा -

1

(3) पसंद की पंक्तियाँ -

1

(4) पंक्तियाँ पसंद होने का कारण -

1

(5) रचना से प्राप्त संदेश/प्रेरणा -

2

विभाग 3—पूरक पठन : 8 अंक

3. (अ) निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए : 4

दुर्गा प्र. नौटियाल : आपने अब तक काफी साहित्य रचा है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?

शिवानी : जहाँ तक संतुष्ट होने का संबंध है, मैं समझती हूँ कि किसी को भी अपने लेखन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लक्ष्य को सामने रखकर कुछ ऐसा लिखूँ कि जिस परिवेश को पाठक ने स्वयं भोगा है, उसे जीवंत कर दूँ। मुझे तब बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई पाठक मुझे लिख भेजता है कि आपने अमुक-अमुक चरित्र का वास्तविक वर्णन किया है अथवा फलों-फलों

P.T.O.


10/N 502

चरित्र, लगता है, हमारे ही बीच है। लेकिन साथ ही मैं यह मानती हूँ कि लोकप्रिय होना न इतना आसान है और न ही उसे बनाए रखना आसान है। मैं गत पचास वर्षों से बराबर लिखती आ रही हूँ। पाठक मेरे लेखन को खूब सराह रहे हैं। मेरे असली आलोचक तो मेरे पाठक हैं, जिनसे मुझे प्रशंसा और स्नेह भरपूर मात्रा में मिलता रहा है। शायद यही कारण है कि मैं अब तक बराबर लिखती आई हूँ।


(1) कृति पूर्ण कीजिए :

2

(i)



(ii)



11/N 502

(2) 'परिवेश का प्रभाव व्यक्तित्व पर होता है' विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2

(आ) निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए : 4

जहाँ पर भाईयों में प्यार का सागर नहीं होता,
वो ईंटों का मकाँ होता है, लेकिन घर नहीं होता।
जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो,
वो चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर नहीं होता।
जो समझौते की बातें हैं, खुले दिल से ही होती हैं,
जो हम मिलते हैं उनसे, हाथ में खंजर नहीं होता।
हकीकत और होती है, नजर कुछ और आता है,
जहाँ पर फूल खिलते हैं, वहाँ पत्थर नहीं होता।

(1) एक/दो शब्दों में उत्तर लिखिए : 2

(i) जहाँ भाईयों में प्यार होता है वहाँ—

.....

(ii) जिसमें अपने देश पर कटने का जज्बा होता है उसे—

.....

12/N 502

(iii) जहाँ समझौते की बातें होती हैं वहाँ—
.....

(iv) जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ—
.....

(2) 'अपनत्व की भावना' विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2

विभाग 4—भाषा अध्ययन (व्याकरण) : 14 अंक

4. सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए :

14

(1) निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए : 1

(i) धीरे-धीरे

(ii) के लिए

(2) कृति पूर्ण कीजिए :

1

शब्द	संधि-विच्छेद	संधि-भेद
सदैव +

(3) निम्नलिखित सामासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार लिखिए : 1

शब्द	समास विग्रह	प्रकार
महात्मा

13/N 502

- (4) निम्नलिखित अलंकार पहचानकर उसका प्रकार और उप-प्रकार लिखिए : 1

वाक्य	प्रकार	उप-प्रकार
जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई। बारे उजियारो करे, बढ़े अँधेरो होई।

- (5) निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए : <https://www.maharashtrastudy.com> 1

(i) ताव आना -

(ii) उड़ जाना -

- (6) निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विरामचिह्नों का प्रयोग कीजिए : 1

ऐसा लगता है पुत्तर आप कहीं काम करती हो ! !

- (7) निम्नलिखित वाक्य से कारक पहचानकर उसका भेद लिखिए : 1

दिलीप ने पूछा, "तुम्हारा घर कहाँ है ?"

- (8) निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए : 1

बरामदा तालीया से गूँज उठी।

14/N 502

(9) उत्तर लिखिए :

2

प्रथम तथा तृतीय	श्री गुरु चरन सरोज रज,	यह
चरण की मात्राएँ	निजमन मुकुर सुधार।
..... हैं।	बरनों रघुवर विमल जस	छंद है।
	जो दायक फल चार॥	

(10) निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए :

2

(i) आप इन दिनों फ्लाबेर के पत्र पढ़ रहे हैं।

लिखिए

(पूर्ण भूतकाल)

(ii) मेम साहब को परदे पसंद आये थे।

लिखिए

(सामान्य वर्तमानकाल)

(11) वाक्य भेद तथा परिवर्तन :

2

(i) निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचानकर लिखिए :

तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी।

15/N 502

(ii) निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए :

मानू इतना ही बोल सकी।

(प्रश्नार्थक वाक्य)

विभाग 5—रचना विभाग (उपयोजित लेखन) : 26 अंक

26

सूचना— आवश्यकतानुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है।

5. सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए :

5

(अ) (1) पत्रलेखन :

निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्रलेखन कीजिए :

पूनम/पोषण ठाकरे, 117, इंद्रप्रस्थ निवास, अमरावती से नागपुर, गया नगर में रहने वाले अपने छोटे भाई अविनाश ठाकरे को राष्ट्रभाषा हिंदी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु मार्गदर्शन पर पत्र लिखती/लिखता है।

अथवा

कावेरी/कार्तिक पाटील, युवा नगर, लातूर से शिवाजी हिंदी विद्यालय के लिए खेल सामग्री मँगाने हेतु मा. व्यवस्थापक, कृष्णा स्पोर्ट्स, चिचंवड, पुणे को पत्र लिखती/लिखता है।

P.T.O.

16/N 502

(2) गद्य-आकलन-प्रश्न निर्मिति :

4

निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे चार प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक-एक वाक्य में हों :

स्वाधीन भारत में अभी तक अंग्रेजी हवाओं में कुछ लोग यह कहते मिलेंगे—जब तक विज्ञान और तकनीकी ग्रंथ हिंदी में न हों तब तक कैसे हिंदी में शिक्षा दी जाए। जब कि स्वामी श्रद्धानंद स्वाधीनता से भी चालीस साल पहले गुरुकुल काँगड़ी में हिंदी के माध्यम से विज्ञान जैसे गहन विषयों की शिक्षा दे रहे थे। ग्रंथ भी हिंदी में थे और पढ़ाने वाले भी हिंदी के थे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। एक लंबे अरसे तक अंग्रेज गुरुकुल काँगड़ी को भी राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग मानते रहे। इसमें कोई संदेह भी नहीं कि गुरुकुल के स्नातकों में स्वाधीनता की अजीब तड़प थी। स्वामी श्रद्धानंद जैसा राष्ट्रीय नेता जिस गुरुकुल का संस्थापक हो और हिंदी शिक्षा का माध्यम हो; वहाँ राष्ट्रियता नहीं पनपेगी तो कहाँ पनपेगी।

17/N 502

(आ) (1) वृत्तांत लेखन :

5

प्रगति हिंदी विद्यालय, बारामती में मनाए गए 'शिक्षक दिवस' समारोह का
70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिये :

(वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है।)

अथवा

कहानी लेखन :

निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर
उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए :

एक शरारती लड़का — पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं — माता-पिता, गुरुजनों
का समझाना — कोई असर नहीं — परीक्षा में अनुत्तीर्ण — माता-पिता
का फटकारना — घर छोड़ना — निराश होकर पहाड़ी मंदिर में पहुँचना —
दीवार पर एक चींटी को दाना पकड़कर चढ़ते हुए देखना — कई बार
गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना — हिम्मत न हारना — आखिर चढ़ने में
सफल — प्रेरणा पाना — उत्साह बढ़ना — घर आकर पढ़ाई में जुट जाना —
आगे चलकर बड़ा विद्वान बनना।


P.T.O.

18/N 502

(2) विज्ञापन लेखन :

5

निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए :



(इ) निबंध लेखन :

7

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए :

- (1) मेरा प्रिय वैज्ञानिक
- (2) सैनिक की आत्मकथा
- (3) वनों का महत्व

<https://www.maharashtrastudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से